

Total Pages : 4

LN-19

B.A. (Part-I) Examination, 2023

(New Course)

GEOGRAPHY

[Paper : Second]

(Human Geography)

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 50

Note : Attempt **all five** questions. **One** question from each unit is **compulsory**. All question carry **equal** marks.

सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

UNIT-I / इकाई-I

1. Explain the interrelation of Man and Environment. [10]

मानव एवं पर्यावरण के अन्तर्सम्बन्ध को समझाइए।

OR/अथवा

What is Possibilism ? Explain the Possibilism.

संभववाद क्या है ? संभववाद की व्याख्या कीजिए।

UNIT-II / इकाई-II

2. What is meant by human races ? Classify human races.

[10]

मानव प्रजाति से क्या तात्पर्य है ? मानव प्रजातियों का वर्गीकरण कीजिए।

OR/अथवा

Describe the habitate, economy and society of the Gond.

गोंड के निवास स्थान, अर्थव्यवस्था एवं समाज का वर्णन कीजिए।

UNIT-III / इकाई-III

3. Mention world pattern of distribution of population. [10]

जनसंख्या वितरण के विश्व प्रतिरूपों का उल्लेख कीजिए।

OR/अथवा

Write short notes on **any two** of the following :

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

- (a) Population Emigration in the world

विश्व में जनसंख्या प्रवास

- (b) Optimum population

अनुकूलतम जनसंख्या

- (c) Causes of population growth

जनसंख्या वृद्धि के कारण

UNIT-IV / इकाई-IV

4. Describe the types and patterns of urban settlements.

[10]

नगरीय अधिवासों के प्रकारों एवं प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए।

OR/अथवा

Explain the pattern of rural settlement in India.

भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूपों की व्याख्या कीजिए।

UNIT-V / इकाई-V

5. What is air pollution ? Describe the sources, effects and important measures to control the air pollution. [10]

वायु प्रदूषण क्या है ? वायु प्रदूषण के स्रोत, प्रभावों एवं प्रदूषण को रोकने के प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए।

OR/अथवा

Write short notes on **any two** of the following :

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

- (a) Impact of Soil Pollution

मृदा प्रदूषण का दुष्प्रभाव

- (b) Sources of Water Pollution

जल प्रदूषण के स्रोत

- (c) Green House Effect

ग्रीन हाउस प्रभाव

---x---